

...continued from previous page.

**AVAILABILITY OF PROSPECTUS:** Investors are advised to refer to the Prospectus and the "Risk Factors" on page 19 of the Prospectus, before applying in the Issue. Physical copies of the Prospectus can be obtained from the Company's Registered Office, offices of Lead Manager to the Issue, offices of Consortium Members, Registrar to the Issue, and Designated Branches of the SCSBs. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Issuer at [www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com), of the Lead Manager at [www.corporateprofessionals.com](http://www.corporateprofessionals.com), of BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), respectively and on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in).

**PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK/ SPONSOR BANK/ REFUND BANK:** HDFC Bank Limited  
**CONSORTIUM MEMBERS:** Corporate Professionals Capital Private Limited, Globe Capital Market Limited and Moneywise Finvest Limited.  
**Note:** Capitalized Terms not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the Prospectus.

For further details, please refer Prospectus dated March 19, 2025.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	CREDIT RATING AGENCIES	DEBENTURE TRUSTEE	STATUTORY AUDITORS	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <b>Corporate Professionals</b> Corporate Professionals Capital Private Limited D-28, South Extension, Part I New Delhi - 110 049, India Tel: +91 011 4062 2230/ 2091 251 E-mail: <a href="mailto:mb@indiapcp.com">mb@indiapcp.com</a> Investor Grievance Email: <a href="mailto:smc.ncd@indiapcp.com">smc.ncd@indiapcp.com</a> Website: <a href="http://www.corporateprofessionals.com">www.corporateprofessionals.com</a> Contact Person: Anjali Aggarwal SEBI Registration No.: INM000011435 CIN: U74899DL2000PTC104508	 <b>MUFG</b> <small>MUFG Intime</small> MUFG Intime India Private Limited (formerly named as Link Intime India Private Limited) C 101, 247 Park, L. B. S Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel: +91 810 811 4949, Website: <a href="https://in.mpmgsmufg.com/">https://in.mpmgsmufg.com/</a> E-mail: <a href="mailto:smcglobal.ncd2025@linkintime.co.in">smcglobal.ncd2025@linkintime.co.in</a> Investor Grievance Email: <a href="mailto:smcglobal.ncd2025@linkintime.co.in">smcglobal.ncd2025@linkintime.co.in</a> Contact Person: Shanti Gopalakrishnan URL (SEBI): <a href="https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&amp;intmid=10">https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&amp;intmid=10</a> SEBI Registration No.: INR000004058; CIN: U67190MH1999PTC118368	 <b>ICRA</b> ICRA Limited Electric Mansion, 3rd floor, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025 Tel: +91-22- 6114 3406 Contact Person: L. Shivkumar Email ID: <a href="mailto:shivakumar@icraindia.com">shivakumar@icraindia.com</a> Website: <a href="http://www.icra.in">www.icra.in</a> SEBI Registration No.: IN/CRA/008/15	 <b>IDBI trustee</b> IDBI Trusteeship Services Ltd IDBI Trusteeship Services Limited Universal Building, Sir PM Road, Fort, Mumbai – 400 001 Tel: 022 4080 7000; Fax: 022 6631 1776 Email: <a href="mailto:nikhil@idbitrustee.com">nikhil@idbitrustee.com</a> / <a href="mailto:gaurav.jeswani@idbitrustee.com">gaurav.jeswani@idbitrustee.com</a> / <a href="mailto:itsl@idbitrustee.com">itsl@idbitrustee.com</a> Investor Grievance Email: <a href="mailto:response@idbitrustee.com">response@idbitrustee.com</a> Website: <a href="http://www.idbitrustee.com">www.idbitrustee.com</a> Contact Person: Mr. Nikhil Lohana / Mr. Gaurav Jeswani SEBI Registration No.: IND000004060	M/s. P.C. Bindal & Co. 101, Sita Ram Mansion, 718/21, Joshi Road, Karol Bagh New Delhi - 110005 Tel: 45073430 / 31 Firm registration no.: 003824N Email: <a href="mailto:pcbindalco@gmail.com">pcbindalco@gmail.com</a> , <a href="mailto:kc Gupta@pcbc.in">kc Gupta@pcbc.in</a> Peer review certificate no.: 013347 Contact Person: K C Gupta	Suman Kumar Address: 11/6B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi -110 005, India  Investor may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer in case of any pre-issue or post-issue related issues such as non-receipt of Allotment advice, demat credit, refund orders, non-receipt of debentures certificates (in case of NCDs which have been re-materialised), transfers or interest on application money, etc. as the case maybe.

**DISCLAIMER:** SMC Global Securities Limited ("Company"), subject to market conditions and other considerations, is proposing a public issue of secured, rated, listed, redeemable non-convertible debentures ("NCDs") and has filed a prospectus dated March 19, 2025 ("Prospectus") with the Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana at Delhi ("RoC"). BSE Limited ("BSE"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Prospectus is available on the website of the Company at: [www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com), on the website of BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), on the website of NSE at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), on the website of the Lead Manager at [www.corporateprofessionals.com](http://www.corporateprofessionals.com) and on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in). Investors proposing to participate in the Issue should invest only on the basis of the information contained in the Prospectus. Investors should note that investment in the NCDs involves a high degree of risk and for details in relation to the same, refer to the Prospectus, including the section titled "Risk Factors" and "Material Developments" beginning on pages 19 and 212 respectively of the Prospectus. The Issuer and the Lead Manager accept no responsibility for statements made otherwise than in the Prospectus or in the advertisement or any other material issued by or at the instance of the Company and that anyone placing reliance on any other source of information would be doing so at their own risk.

Date: March 31, 2025  
Place: New Delhi

For SMC Global Securities Limited

Sd/-

Subhash Chand Aggarwal  
Chairman and Managing Director

CONCEPT

**Orient Technologies Limited**  
(Formerly known as Orient Technologies Private Limited)  
CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L64200MH1997PLC109219  
Registered Office: Off No-502, 5th Floor, Akurli Star, Central Road, MIDC, Opp. Akurli Point Central, Andheri (East), Mumbai – 400 093.  
Corporate Office: 602, Akurli Center Point, MIDC Central Road, Andheri (East), Mumbai Maharashtra – 400 093  
E-mail: [complianceofficer@orientindia.net](mailto:complianceofficer@orientindia.net); Website: [www.orientindia.net](http://www.orientindia.net); Tel: +91 22 4292 8777

### DECLARATION OF RESULTS OF POSTAL BALLOT

As per the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulation, 2015 ("LODR Regulation"), as amended, the Company had provided the facility of e-voting to the Shareholders to enable them to cast their vote electronically on the resolutions set out in the Postal Ballot Notice dated February 27, 2025. The e-voting was open from 9.00 A.M. (IST) on Saturday, March 1, 2025, to 5.00 P.M. (IST) on Sunday, March 30, 2025.

The Board of Directors had appointed CS Alwyn D'Souza, of M/s Alwyn D'Souza & Co., Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 5559 & Certificate of Practice No. 5137) or failing him Mr. Jay D'Souza (Membership No. FCS 3058 and Certificate of Practice No. 6915) Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for remote e-voting on Postal Ballot Resolutions. The Scrutinizer has carried out the scrutiny of all the electronic votes received during the postal ballot period and submitted his Report on March 31, 2025.

The results as per the Scrutinizer's Report dated March 31, 2025, are as follows:

Sr. No.	Particulars	Type of Resolution	% Votes in Favour	% Votes Against
1	To consider and approve certain variations in the utilization of proceeds from the Public Issue, as outlined in the Company's Prospectus dated August 26, 2024	Special Resolution	99.99	0.01

Based on the report of the Scrutinizer, the resolutions set out in the Postal Ballot notice have been approved by the shareholders with the requisite majority.

For ORIENT TECHNOLOGIES LIMITED  
(formerly known as Orient Technologies Private limited)  
Sd/-  
Ms. Nayana Nair  
Company Secretary and Compliance Officer  
ACS-65753

**CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF**  
**HIGH STREET FILATEX LIMITED**  
(("HSFL"/"TARGET COMPANY"/"TC")  
(Corporate Identification No. L10790RJ1994PLC008386)  
Registered Office: B-17, 1<sup>st</sup> Floor, 22 Godam Industrial Area, Jaipur - 302006, Rajasthan;  
Phone No.: 0141-4025431; Email id: [highstreet.filatex@gmail.com](mailto:highstreet.filatex@gmail.com); Website: [www.highstreetfilatex.in](http://www.highstreetfilatex.in)

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011  
This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Sandeep Agrawal (Acquirer-1) and Mrs. Anupriya Sandeep Agrawal (Acquirer-2) (Acquirer-1 and Acquirer-2 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR1/PJ/OW/2025/9005/1 dated March 24, 2025 in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 10,96,792 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the emerging equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) and Maha Nagar Times - Hindi Daily – (Jaipur Edition) on 31<sup>st</sup> January, 2025.

**THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:**

- Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	24.01.2025	Friday	24.01.2025	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	31.01.2025	Friday	31.01.2025	Friday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	31.01.2025	Friday	31.01.2025	Friday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	07.02.2025	Friday	07.02.2025	Friday
Last date for a Competing offer	24.02.2025	Monday	24.02.2025	Monday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	04.03.2025	Tuesday	24.03.2025	Monday
Identified date*	06.03.2025	Thursday	26.03.2025	Wednesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	13.03.2025	Thursday	03.04.2025	Thursday
Last date for revising the Offer Price	19.03.2025	Wednesday	08.04.2025	Tuesday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	19.03.2025	Wednesday	08.04.2025	Tuesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	20.03.2025	Thursday	09.04.2025	Wednesday
Date of Opening of the Offer	21.03.2025	Friday	11.04.2025	Friday
Date of Closure of the Offer	04.04.2025	Friday	28.04.2025	Monday
Post Offer Advertisement	15.04.2025	Tuesday	06.05.2025	Tuesday
Payment of consideration for the acquired shares	23.04.2025	Wednesday	14.05.2025	Wednesday
Final report from Merchant Banker	30.04.2025	Wednesday	21.05.2025	Wednesday

\*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, Sellers / Existing Promoters) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

- As on date of the Letter of Offer, existing Share & Voting Capital / Fully paid Equity Existing Share & Voting Capital of the Target Company was Rs. 64,70,000 divided into 6,47,000 Equity Shares of Rs. 10/- Each and Emerging Equity Share & Voting Capital / Emerging Share Capital / Emerging Voting Capital was 42,18,430 fully paid-up equity shares of the face value of Rs. 10/- each of the Target Company being the capital post allotment of 35,71,430 equity shares (18,00,000 equity shares to Acquirer-1, 7,00,000 equity to Acquirer-2 and 10,71,430 equity shares to public category investors) on preferential basis. Since Target Company has allotted 16,96,430 equity shares (4,50,000 equity shares to the Acquirer-1, 1,75,000 equity shares to Acquirer-2 and 10,71,430 equity shares to public category investors) on preferential basis on 28<sup>th</sup> March, 2025, hence as on date of this Corrigendum to DPS, existing Share & Voting Capital / Fully paid Equity Existing Share & Voting Capital of the Target Company is Rs. 2,34,34,300 divided into 23,43,430 Equity Shares of Rs. 10/- Each.
- Equity shares allotted / to be allotted to the Acquirers, will be kept in demat escrow account in accordance with Regulation 22A of SEBI (SAST) Regulations.

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

**ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS**  
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED  
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.  
Tel No. +91-22- 4120 4837 / 4973 5078  
Email id: [navigant@navigantcorp.com](mailto:navigant@navigantcorp.com)  
Website: [www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com)  
SEBI Registration No: INM000012243  
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani



Place: Mumbai

Date: March 29, 2025

**"IMPORTANT"**  
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF**  
**MAGNUS RETAIL LIMITED**  
(("MAGNUS"/"MRL"/"TARGET COMPANY"/"TC")  
(Corporate Identification No. L72200MH1978PLC416753)  
Registered Office: Unit no 365, Shirshagaon, Nipah, Nashik,  
Maharashtra- 422001; Phone No.: +91-9112271471;  
Email id: [info@magnusretail.in](mailto:info@magnusretail.in); [magnusretailid@gmail.com](mailto:magnusretailid@gmail.com); Website: [www.magnusretail.in](http://www.magnusretail.in)

This Advertisement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Karroon Nareish Bajaj and Mr. Aditya Nareish Bajaj (Acquirer-2) (Acquirer-1 and Acquirer-2 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 8,78,878 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Offer Opening Public Announcement pursuant to Detailed Public Statement ("DPS") and the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) and Lokmanthan - Marathi Daily (Nashik edition) on 24<sup>th</sup> March, 2025.

- Acquirers have completed the dispatch of the Physical Letter of Offer on 17<sup>th</sup> March, 2025 to such shareholders whose email addresses were not registered with Target Company pursuant to regulation 18(2) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations")
- Various Letter of Offers are returning undelivered. Hence it is to be reiterated that copy of the LOF is also available on the website of Securities and Exchange Board of India (SEBI), [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in) and also on the website of Manager to the Offer, [www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com).
- Shareholders who have not received the Letter of Offer can tender the shares in accordance with procedure described in clause 8.15 on 25 of Letter of Offer, which is reproduced as below:

#### Procedure for Tendering the Shares in case of Non-Receipt of the Letter of Offer:

Persons who have acquired equity shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified date, or those who have not received the Letter of offer, may also participate in this Offer. A shareholder may participate in the Offer by approaching their broker and tender Equity shares in the Open Offer as per the procedure mentioned in this Letter of Offer or in the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement. The Letter of Offer along with Form of Acceptance-cum-Acknowledgement will be dispatched to all the eligible shareholders of the Target Company as on the Identified date. In case of non-receipt of the Letter of Offer, such eligible shareholders of the Target Company may download the same from the SEBI website ([www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in)) or BSE website ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) or Merchant Banker website ([www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com)) or obtain a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity shares of the Target Company. Alternatively in case of non-receipt of the Letter of Offer, shareholders holding shares may participate in the Offer by providing their application in plain paper in writing signed by all shareholder, stating name, address, number of shares held, client id number, DP name, DP ID number, number of shares tendered and other relevant documents such as physical share certificates and Form SH-4 in case of shares being held in physical form. Such Shareholders have to ensure that their order is entered in the electronic platform to be made available by the BSE before the closure of the Offer.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

**ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS**  
NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED  
804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059.  
Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078  
Email id: [navigant@navigantcorp.com](mailto:navigant@navigantcorp.com)  
Website: [www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com)  
SEBI Registration No: INM000012243  
Contact person: Mr. Sarthak Vijlani



Place: Mumbai  
Date: March 28, 2025

Stamp of Director

**IRM ENERGY LIMITED**  
CIN: L40100GJ2015PLC085213  
Registered Office : 4th Floor, Block B, Magnet Corporate Park, Near Sola Bridge, S.G. Highway, Ahmedabad, Gujarat, India - 380054; Email: [investor.relations@irmenergy.com](mailto:investor.relations@irmenergy.com); Website: [www.irmenergy.com](http://www.irmenergy.com); Phone: 079-49031500

The Members of IRM Energy Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 and Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") no. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 5th May, 2020 and 09/2024 dated 19th September, 2024 (collectively referred to as "MCA Circulars"), the Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("SS-2"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (SEBI Listing Regulations) and other applicable provisions of the acts, rules, regulations, circulars and notifications (including any statutory modifications or re-enactments thereof for the time being in force and as amended from time to time), the Company seeks the approval of the members for Special Business by way of special resolution, as set out in the postal ballot Notice dated 24th March, 2025, along with explanatory statement (the "Notice") by way of electronic means (i.e. remote e-voting) only.

In accordance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of Notice on Monday, 31st March, 2025, through electronic mode to the members whose e-mail IDs were registered with Company/Depositories and whose names appeared in the Register of Members/list of beneficial owners maintained by the Company/Depositories as on Friday, 28th March, 2025, i.e. the Cut-Off Date. A copy of the Notice is available on the Company's website, i.e. [www.irmenergy.com](http://www.irmenergy.com), in the investors section, on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) respectively and on the website of the e-voting agency i.e. MUFG Intime India Private Limited at <https://instavote.linkintime.co.in>.

In accordance with the provisions of the MCA Circulars, physical copy of the Notice along with the Postal Ballot form and the pre-paid business reply envelope are not sent to the members for this Postal Ballot and member can vote only through e-voting.

Voting rights shall be reckoned on the paid-up value of share registered in the name of the members as on the Cut-Off Date. A person who is not a member as on the Cut-Off Date should treat the Notice for information purpose only.

The Company has engaged the services of MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited) ("MUFG Intime") for providing e-voting facilities to the members.

The members may please note the following e-voting period:

Cut-Off date	Friday, 28th March, 2025
Commencement of e-voting	9.00 a.m. IST on Tuesday, 01st April, 2025
Conclusion of e-voting	5.00 p.m. IST on Wednesday, 30th April, 2025

Members are requested to cast their vote through e-voting not later than 5.00 p.m. IST on Wednesday, 30th April, 2025, to be eligible for being considered, failing which it will be strictly considered that no vote has been received. The e-voting module will be disabled by MUFG Intime upon expiry of the aforesaid period. Once the vote is cast, members will not be allowed to change it subsequently.

The instructions on the process of e-voting for members holding shares in dematerialised and physical form as well as for members who have not registered their email IDs, have been provided in the Notice.

Members holding shares held in electronic form and who have not updated their email address of KYC details are requested to register/update the details in their demat account, as per the process advised by respective Depository Participant. Members holding shares in physical forms who have not updated their email address or KYC details are requested to register/update the said details by writing to the Registrar and Share Transfer Agent, MUFG Intime. Further, members may temporarily get their e-mail address registered with the MUFG Intime, by clicking the link: [https://in.mpmgsmufg.com/EmailReg/Email\\_Register.html](https://in.mpmgsmufg.com/EmailReg/Email_Register.html) post successful registration of the e-mail, the member would get soft copy of the notice.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s M. C. Gupta & Co., Company Secretaries, Ahmedabad, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

After completion of scrutiny of votes cast, the result of e-voting by Postal Ballot shall be declared by the Chairman, or any other person authorised by him within two working days from the conclusion of the e-voting. The result of e-voting will be displayed on the Company's website [www.irmenergy.com](http://www.irmenergy.com) in the investors section, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively and on the website of the e-voting agency at <https://instavote.linkintime.co.in>.

For any query or issue regarding e-voting, you may refer Frequently Asked Questions ("FAQ") and InstaVote e-voting manual available under help section at <https://instavote.linkintime.co.in> or send an email to [enotices@in.mpmgsmufg.com](mailto:enotices@in.mpmgsmufg.com) or contact on Tel: 022-49186000.

By Order of the Board  
For, IRM Energy Limited  
Place: Ahmedabad  
Date: 31st March, 2025  
Akhshil Soni  
Company Secretary & Compliance Officer

**NAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT (NMIA)**  
**EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR**  
**VARIOUS SLA BASED SERVICES**  
**(PACKAGE -1) AT NMIA**

### Corrigendum No 1

The deadline for submission of the response to EOI (published vide our EOI notice dated 19th March 2025) is now revised 5th April 2025, 15:00 hrs IST. For details refer to our Website: [www.nmiairport.co.in](http://www.nmiairport.co.in)

**AB COTSPIN INDIA LIMITED**  
CIN: L17111PB1997PLC020118  
Registered Address : N.H.4, Gorianna Road, Near Laxo-3 Bathinda, Punjab-151001  
Factory Address : Bathinda Road, Jaitu, Faridkot, Punjab-151202  
Email : [info@abcotspin.in](mailto:info@abcotspin.in), Website : [www.abcotspin.in](http://www.abcotspin.in), Phone : 01635232670,  
**NOTICE OF POSTAL BALLOT**

The members of A B Cotspin India Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 (the "Act") read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in accordance with guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") for conducting postal ballot process through remote e-voting vide General Circular issued by MCA ("MCA Circulars") from time to time, Secretariat Standards-2 on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws and regulations, if any, the Company as on March 31, 2025 through an e-mail, sent a Notice of Postal Ballot along with Explanatory Statement dated March 27, 2025 ("Notice") along with the details of e-voting to the Members whose name appears in the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from the Depositories/Depository Participants on March 26, 2025 and who have registered their e-mail addresses with the Company and/or with the Depositories/Depository Participants for seeking consent of the Members through postal ballot by e-Voting, in relation to the resolutions as detailed in the said Notice.

In compliance with the MCA Circulars, the postal ballot notice and instructions for e-voting are being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/depository participants).

The Company has engaged the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the e-voting will commence at 9:00 AM India Standard Time (IST) on April 01, 2025 and will end at 5:00 PM on April 30, 2025. The e-voting module will be disabled for voting by Central Depository Services (India) Limited after the said date and time, in compliance with Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "LODR Regulations") and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the rules framed thereunder and the MCA Circulars, the manner of voting on the proposed resolution is restricted only to e-voting i.e., by casting votes electronically instead of submitting postal ballot forms. The communication of the assent or dissent of the Members would take place through the remote e-voting system only. However, it is clarified that all the persons whose members of the Company as on March 28, 2025 (including those members who may not have received this notice due to non-registration of their e-mail ID's with the Company or with the Depositories/Depository Participants) shall be entitled to vote in relation to the resolutions specified in the Notice. Members holding Shares in Electronic form are requested to update their email address and mobile number with their respective DPs.


The Notice of the Postal Ballot is displayed on the website of the Company at [www.abcotspin.co.in](http://www.abcotspin.co.in) Stock Exchange i.e., National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com). The Board of Directors of the Company (the "Board") has appointed Mr. Deepak Gupta, (COP No. 4629 and Membership No. F5339), Partner of DR Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for scrutinizing the E-voting process and conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner. The result of the Postal Ballot will be announced on or before May 02, 2025 and shall be placed on the website of the Company, and on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) and shall also be communicated to stock exchange, where shares of the Company are listed.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) under help section or write an email to [helpdesk.evoting@csindia.com](mailto:helpdesk.evoting@csindia.com) or call on 022-23058738 and 022-23058542/ 43.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Malafall Hill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to [helpdesk.evoting@csindia.com](mailto:helpdesk.evoting@csindia.com) or call on 022-23058542/43.

By order of the Board of Directors  
For A B Cotspin India Limited  
Sd/-  
Kannu Sharma  
Company Secretary & Compliance Officer  
ACS-64063  
Date : 31.03.2025  
Place: Bathinda, Punjab




**इंडियन रेलवे केटोरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
(सार्वजनिक सार्वजनिक उद्यम - सरकारी)  
 सीआईडीएन : L74899DL199900H16707

**आईआरसीटीसी निम्नालिखित के लिए ई-निविदा आमंत्रित करता है:-**

- खुली ई-निविदा** – रेल नीर प्लांट, छाता (हिमाचल प्रदेश) से उपचारित रेल नीर फैक्ट्री फैक्टरी को दिल्ली स्थित के ट्रेडिंग (नई दिल्ली, ह. निम्नलिखित, आनंद बिहार ट. दिल्ली जं., सारना रोडहोला, दिल्ली बंद आदि) तक परिवहन सेवाओं के लिए एंजिनीयर्स के समूह को बुक हो निविदा। [जमा करने की अंतिम तिथि: 08.04.2025 को 15:00 बजे तक।]
- खुली ई-निविदा सं. 2025/आईआरसीटीसी/एनबीए/एफबी/खुली निविदा/एपीआरआई/ई-निविदा-वैश्व-नीयता** – मेसरा रोड (एफटीडी) रेलवे स्टेशन एमटीडी (बीएम 324) लां क्षेत्र में कवर घड़ पेंटिंग की व्यवस्था, परिवहन एवं कवर घड़ निविदा। [जी-विड मॉडिंग 08.04.2025 को 12:30 बजे तक। जमा करने की अंतिम तिथि: 01.05.2025 को 15:00 बजे तक।]
- खुली ई-निविदा** – विनिम रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूप एवं डेमोटेरीजल का नवीनीकरण, रखरखाव एवं ट्रांसफर बैक हेतु निविदा। [जमा करने की अंतिम तिथि: 16.04.2025 को 15:00 बजे तक।]
- खुली ई-निविदा (दो पैकेट निविदा)** – एक: वर्ष की अवधि के लिए आईआरसीटीसी प्रबंधित 700 कंटेनर किशन युनिट (लवण) में थर्ड पार्टी कूट रोपटी एवं हाईजिन ऑब्जेक्ट हेतु निविदा। [जी-विड मॉडिंग 15.04.2025 को 12:00 बजे।] जमा करने की अंतिम तिथि: 28.04.2025 को 15:30 बजे तक।
- खुली ई-निविदा** – रेल नीर प्लांट, नागसोई, दिल्ली में रेल नीर फैक्ट्री ड्रिनिंग वाटर के परिवहन और सीएलएफ सेवाओं हेतु निविदा। [ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि: 22.04.2025 को 15:00 बजे तक।]
- खुली ई-निविदा सं.: आईआरसीटीसी/आईए/कोनोरेटिंग/आईए/2025** – रेल नीर प्लांट/अम्बनगाव (महाराष्ट्र), दानापुर (बिहार) और नगसोई (दिल्ली) में कोकालिट 1.5 टन की आपूर्ति एवं कमीशनिंग हेतु निविदा। [जमा करने की अंतिम तिथि: 11.04.2025 को 15:00 बजे तक।]

सिल्ला बिबरनी हेतु 1-6 के लिए [www.irctc.com](http://www.irctc.com), 1-5 के लिए [www.tenderwizard.com/IRCTC](http://www.tenderwizard.com/IRCTC) और 6 के लिए [www.GeM Portal](http://www.GeM Portal) हेतु। निविदा दस्तावेज डाउनलोडिंग एवं प्रस्तावनिमा 1-6 के लिए [www.tenderwizard.com/IRCTC](http://www.tenderwizard.com/IRCTC) और 6 के लिए [www.GeM Portal](http://www.GeM Portal) पर की जा सकती है।

उपरोक्त निविदाएं का बुकिंग/पंजीकृत जारी होने पर उक्त केवल 1-6 के लिए [www.irctc.com](http://www.irctc.com), 1-5 के लिए [www.tenderwizard.com/IRCTC](http://www.tenderwizard.com/IRCTC) और 6 के लिए [www.GeM Portal](http://www.GeM Portal) पर प्रकाशित किया जाएगा।

**आईआरसीटीसी लि.,** मुंबई हाउ, टोकर-बी, बन्दे ईड स्टेट, नौकरी नगर, नई दिल्ली-110029, मो.011-35646202

**फार्म नं. आईएनसी-26**  
 [कम्पनीयों के नियम 30 के अनुसार (निगम) नियम, 2014]  
 कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किए जाने हेतु

**समक्ष (केन्द्र सरकार) क्षेत्रीय निदेशक,**  
**उत्तरी क्षेत्र गीट, नई दिल्ली**  
 कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के 30(5)(g) के साथ पढ़ें।

**विषय**  
 मामले में **हाइब्रैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("कम्पनी")** जिसका पंजीकृत कार्यालय हाऊस नं. 3151, सैक्टर 19डी, सैक्टर 19, चंडीगढ़ – 160019, इंडिया में स्थित है।

**... आवेदक कंपनी**  
 एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 एवं आय लागू प्रावधानों। यदि हो के तहत कम्पनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम सभा में कम्पनी को सक्षम करने हेतु 28.03.2025 को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"प्रधान टैटोरी ऑफ नवीगट"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने हेतु पारित किया गया है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होता हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति शपथपत्र में उल्लेख करते हुए जिसमें उक्त हित/आपत्ति के आधार हो, **MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निम्नलिखित नियमों का पढ़ कर** या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 बिल्डिंग, दूसरा तल, पश्चिम दीनदयाल अंतोदया भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110 003 को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा प्रेषित कर तथा इसकी एक कपी आवेदक कम्पनी को अर्पित निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशित होने के चौदह दिनों के भीतर प्रेषित करें।

**हाऊस नं. 3151, सैक्टर 19डी, सैक्टर 19, चंडीगढ़ – 160019, इंडिया**  
**कृते हाइब्रैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड**  
 हस्ता./— (जबलोन कौर चट्टा)  
 निदेशक, DIN : 10080253

दिनांक : 31.03.2025  
 स्थान : चंडीगढ़


**सार्वजनिक सूचना**  
 रियल एस्टेट परियोजना  
**"अनंत राज एस्टेट"** के आवंटियों के ध्यानार्थ  
 गुरुग्राम के सेक्टर 65ए में स्थित,  
**मेसर्स अनंत राज लिमिटेड** द्वारा विकसित किया जा रहा है

- उपयुक्त परियोजना अंतरिम RERA, पंचकूला में पंजीकरण संख्या 142/2017 दिनांक 28.08.2017 के तहत प्रतीकृत की गई थी और पंजीकरण 27.08.2022 + 6 महीने COVID-19 = 27.02.2023 तक वैध था। इसके अलावा, RERA, गुरुग्राम द्वारा प्रमोटर को अधिनियम 2016 की धारा 6 के तहत परियोजना के पंजीकरण का विस्तार दिया गया था, विस्तार संख्या 19/2023 दिनांक 10.07.2023 के तहत 27.02.2024 तक वैध है।
- प्रमोटर ने प्राधिकरण को एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि पंजीकरण की अवधि समाप्त होने पर उसे रद्द करने के स्थान पर प्राधिकरण उसे ऐसे अतिरिक्त नियमों व शर्तों के अधीन लागू रहने की अनुमति दे सकता है, जिन्हें वह आवंटियों के हित में लागू करना चाहता समझे, तथा इस प्रकार लागू गए ऐसे कोई भी नियम व शर्तें प्रमोटर पर बाध्यकारी होंगी।
- प्राधिकरण इस परियोजना के लिए 2016 के अधिनियम की धारा 7(3) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र को जारी रखने की अनुमति देने के लिए प्रमोटर के आवेदन पर विचार कर रहा है और इस संबंध में विशेष रूप से आवंटियों और सामान्य रूप से किसी भी अन्य संबंधित व्यक्ति से आपत्तियां, यदि कोई हो, आमंत्रित करता है।
- यदि कोई आपत्ति हो तो उसे प्राधिकरण की रजिस्ट्री में 16.04.2025 से पहले दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित व्यक्ति 21.04.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं, अन्यथा प्राधिकरण अधिनियम, 2016 की धारा 7(3) के अंतर्गत पंजीकरण जारी रखने के लिए वर्तमान आवेदन पर विचार कर सकता है।

प्राधिकरण के अनुमोदन एवं उसकी महर के अधीन दिया गया।

**सचिव**  
**हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण,**  
**गुरुग्राम की ओर से**

दिनांक: 01.04.2025


**न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर लिमिटेड**  
 सीआईडीएन : L74899DL1989PLC034594  
 पंजीकृत कार्यालय: 33-35 ल्याग्राज मार्गेट, नई दिल्ली-110003  
 टेलीफोन नं.: +91-120-40314400; फ़ैक्स : +91-120-4031672  
 ई-मेल : [investorrelations@nucleussoftware.com](mailto:investorrelations@nucleussoftware.com)  
 वेबसाइट : [www.nucleussoftware.com](http://www.nucleussoftware.com)

**कम्पनी के शेयरों का (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार) विनिधानकर्ता सिखा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) खाता में अंतरण हेतु कम्पनी के शेयरधारकों को सूचना**

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि विनिधानकर्ता सिखा और संरक्षण निधि (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिवेद्य) नियम, 2016 (नियम), यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, **वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु घोषित अंतिम लामांश**, जो सात वर्षों की अवधि तक दायम का किया गया हो, उसे 1 जुलाई, 2025 को आईइपीएफ में जमा कर दिया जाएगा। जिन सम्बद्ध शेयरों पर लामांश लगातार सात वर्षों तक दायम नहीं किया गया है, उन्हें भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंतरित किया जाएगा।

निवर्तकों के अनुपातन में, उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत सूचना भेजी जा रही है जिनके शेयर उपरोक्त नियमों के अनुसार आईइपीएफ में अंतरण हेतु संभाव्य हैं। ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण कंपनी की वेबसाइट <https://investor.nucleussoftware.com/unclaim.aspx> पर उपलब्ध किया गया है।

इस संबंध में, कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:


- यदि आपको पास भौतिक रूप में शेयर प्रमाणपत्र हैं: डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और आईइपीएफ में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। आपको नाम(ओं) पर पंजीकृत और आपको पास प्रतिरक्षित मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे।
- यदि आप शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरक्षित करते हैं: आपके डीमैट खाते से आईइपीएफ में अंतरण हेतु संभाव्य शेयरों को डेबिट किया जाएगा।

26 जून, 2025 को या उससे पूर्व वैध दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, कंपनी निम्ना लिखित कार्यालय के आईइपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में संभाव्य लामांश एवं संबंधित इक्विटी शेयरों को अंतरित करने की ओर अग्रसर होगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार लायर्सि लामांश राशि एवं आईइपीएफ को हस्तांतरित शेयरों के संख्या में कंपनी को विशिष्ट कोई दावा मान्य नहीं होगा। यह ध्यान दें कि संबंधित शेयरधारक कंपनी से पात्रता प्राप्त करने के उपरान्त निर्धारित फॉर्म IEPF-F-5 में ऑनलाइन आवेदन करके आईइपीएफ प्राधिकरण से शेयरों एवं लामांश का दावा कर सकते हैं।

उपरोक्त मामले के संबंध में किसी भी प्रश्न हेतु, शेयरधारक कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स कोफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क: न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉयट्स लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, फ्लॉट 31 व 32, मध्वीबावली, काइनेनसीस हाइ डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड्डा, सेरेलिनियमगुड्डा, हैदराबाद-500032, टेलीफोन +91-40-6716-2222 ईमेल: [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com)

**कृते न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉयट्स लिमिटेड**  
 हस्ता./—  
 स्थान : नोड्डा  
 दिनांक : 31.03.2025

पूर्यम भसीन  
 कम्पनी सचिव

**पंजाब नेशनल बैंक**  
... बैंक में बैंक

**punjab national bank**  
... the name you can BANK upon

**सर्किल कार्यालय (सीआरएमडी), अलीगढ़ कार्यालय, साई विहार, मदन पसे के सामने, ग्राम तालपुर कर्ला, रामगढ़ रोड, अलीगढ़- 202001**  
 ईमेल : [coal\\_sand@pnb.co.in](mailto:coal_sand@pnb.co.in)

**अधिग्रहण सूचना**  
**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विजयवाली 2002 के विवर 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)**

जबकि, अयोधस्तास्रकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय : केसीडीसी मथुरा (116010) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांक 09-02-2024 निर्गत की थी, जिसमें निम्न :-

**प्रेमती पत्नी बच्चू सिंह (उधारकर्ता), पता : मकान नं. 139 ग्राम जैत मथुरा 281001, के साथ**

उक्त सूचना में उल्लिखित राशि रु. 10,33,696/- (रुपये दस लाख तैंतीस हजार पांच सौ छियाने मात्र) + सविदागत दर पर 01-02-2024 से प्रभावी मावी ब्याज तथा पूर्ण भुगतान होने तक अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को सूचना दी जाती है कि अयोधस्तास्रकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 28 मार्च 2025 को अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर्स/बैंककर्ताओं को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन रु. 10,33,696/- (रुपये दस लाख तैंतीस हजार पांच सौ छियाने मात्र) की एक राशि + सविदागत दर पर 01-02-2024 से प्रभावी मावी ब्याज तथा भुगतान होने तक नियत लागतों, शुल्कों एवं व्ययों हेतु पंजाब नेशनल बैंक के प्रभारधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो कि प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

**संपत्ति का विवरण :-**

प्रेमती पत्नी बच्चू सिंह के नाम पर आवासीय संपत्ति के समस्त भाग तथा आंशिक भाग, जो पुरानी पुलिस चौकी के पास मौजा जैत तहसील और जिला मथुरा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल – 150.96 वर्ग मीटर है और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं – पूर्व : पंपू का मकान, पश्चिम : 20 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर : हरि दास और कृष्णा का मकान, दक्षिण : निबल गिराज का मकान।

**दिनांक : 28-03-2025, स्थान : मथुरा**

**प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

**पंजाब नेशनल बैंक**  
... बैंक में बैंक

**punjab national bank**  
... the name you can BANK upon

**सर्किल कार्यालय (सीआरएमडी), अलीगढ़ कार्यालय, साई विहार, मदन पसे के सामने, ग्राम तालपुर कर्ला, रामगढ़ रोड, अलीगढ़- 202001**  
 ईमेल : [coal\\_sand@pnb.co.in](mailto:coal_sand@pnb.co.in)

**अधिग्रहण सूचना**  
**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विजयवाली 2002 के विवर 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)**

जबकि, अयोधस्तास्रकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय : केसी कॉला (080810) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 28 मार्च 2025 को अधिग्रहण कर लिया है।

**मोहन इश्याम पुत्र भद्रत सिंह (उधारकर्ता), पता : मकान नं 476 तहसील छाता मथुरा सूची 81403 पता : खसरा नं. 984 (भाग) पता : मौजा साहपुर रोड भवानी बाबा नगर गोपाल बाग, कोसीकला तहसील छाता जिला मथुरा**

**औम प्रकाश पुत्र किशन सिंह (गारंटर), पता : सुपना तहसील छाता मथुरा सूची 281403, को उक्त सूचना में उल्लिखित राशि रु. 9,84,588.67/- (रुपये नौ लाख चौदसी हजार पांच सौ अठ्ठसी और सड़सठ पैंस मात्र)** + सविदागत दर पर 01-05-2024 से प्रभावी मावी ब्याज तथा पूर्ण भुगतान होने तक अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को सूचना दी जाती है कि अयोधस्तास्रकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 28 मार्च 2025 को अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर्स/बैंककर्ताओं को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन रु. 9,84,588.67/- (रुपये नौ लाख चौदसी हजार पांच सौ अठ्ठसी और सड़सठ पैंस मात्र) की एक राशि + सविदागत दर पर 01-05-2024 से प्रभावी मावी ब्याज तथा भुगतान होने तक नियत लागतों, शुल्कों एवं व्ययों हेतु पंजाब नेशनल बैंक के प्रभारधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो कि प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

**संपत्ति का विवरण :-**

मोहन श्याम पुत्र भरत राम के नाम पर आवासीय संपत्ति के समस्त भाग तथा आंशिक भाग जो प्लॉट नं. 984 खसरा नं. 984 (भाग) गोपाल बाग कोसी कलां परगना एवं तहसील छाता जिला मथुरा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल – 83.60 वर्ग मीटर है तथा इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं – पूर्व : 50 फीट खंब खंब संपत्ति भवानीदेव की, पश्चिम : 50 फीट खंब खंब संपत्ति क्रेता की, उत्तर : रास्ता 18 फीट चौड़ा, दक्षिण : रास्ता 18 फीट चौड़ा।

**दिनांक : 28-03-2025, स्थान : मथुरा**

**प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

**पंजाब नेशनल बैंक**  
... बैंक में बैंक

**punjab national bank**  
... the name you can BANK upon

**सर्किल कार्यालय (सीआरएमडी), अलीगढ़ कार्यालय, साई विहार, मदन पसे के सामने, ग्राम तालपुर कर्ला, रामगढ़ रोड, अलीगढ़- 202001**  
 ईमेल : [coal\\_sand@pnb.co.in](mailto:coal_sand@pnb.co.in)

**अधिग्रहण सूचना**  
**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विजयवाली 2002 के विवर 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)**

जबकि, अयोधस्तास्रकर्ता ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा कार्यालय : बुंदान सगर रेंडि रोड मथुरा (493003) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांक 08-04-2024 निर्गत की थी, जिसमें निम्न :-

**ज्योति पादक पुत्री राजवीर पादक (उधारकर्ता/बैंककर्ता)**

पता : मकान नं. 208 किशोर पुरा बुंदान मथुरा उत्तर प्रदेश

पता : जल दर संख्या 196 (नई), 212 (पुरानी) किशोर पुरा बुंदान

**साधना पादक पुत्री राजवीर पादक (सह-उधारकर्ता/बैंककर्ता/गारंटर)**

पता : मकान नं. 208 किशोर पुरा बुंदान मथुरा उत्तर प्रदेश

पता : जल दर संख्या 196 (नया), 212 (पुराना) किशोर पुरा बुंदान

**राजेश्वर सिंह पुत्र पूर्य सिंह (गारंटर)**

पता : मकान नं. 186 दुय्यम मोहल्ला 1 ठाकुर गली बुंदान मथुरा उत्तर प्रदेश को

उक्त सूचना में उल्लिखित राशि रु. 6,55,620/- (रुपये छह लाख छियान हजार पांच सौ बीस मात्र) + सविदागत दर पर 01-04-2024 से प्रभावी मावी ब्याज तथा पूर्ण भुगतान होने तक अन्य शुल्कों का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को सूचना दी जाती है कि अयोधस्तास्रकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 28 मार्च 2025 को अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर्स/बैंककर्ताओं को विशेष रूप में तथा सर्वसाधारण को एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति/यों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन रु. 6,55,620/- (रुपये छह लाख छियान हजार पांच सौ बीस मात्र) की एक राशि + सविदागत दर पर 01-04-2024 से प्रभावी मावी ब्याज तथा भुगतान होने तक नियत लागतों, शुल्कों एवं व्ययों हेतु पंजाब नेशनल बैंक के प्रभारधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो कि प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

**संपत्ति का विवरण :-**

आवासीय संपत्ति के समस्त भाग तथा अंश भाग जो कि ज्योति पादक और साधना पादक पुत्री राजवीर पादक के नाम पर, मकान नं. 212 (पुरानी) और 196 (नया) मोहल्ला किशोर पुरा बुंदान मथुरा तहसील और जयनगर मथुरा में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल – 44.45 वर्ग मीटर है और जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं – पूर्व : लखन लाल का मकान, पश्चिम : गली 10 फीट चौड़ी उत्तर : पंजन लाल का मकान, दक्षिण : रास्ता 8 फीट चौड़ा।

**दिनांक : 28-03-2025, स्थान : मथुरा**

**प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक**

**CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF**  
**HIGH STREET FILATEX LIMITED**  
 ("HSFL"/"TARGET COMPANY"/"TC")  
 (Corporate Identification No. L10790RJ1994PLC008386)  
 Registered Office: B-17, II<sup>nd</sup> Floor, 22 Godam Industrial Area, Jaipur - 302006, Rajasthan;  
 Phone No.: 0141-4025431; Email id: [highstreet.filatex@gmail.com](mailto:highstreet.filatex@gmail.com); Website: [www.highstreetfilatex.in](http://www.highstreetfilatex.in)

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011

This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Sandeep Agrawal (Acquirer-1) and Mrs. Anupriya Sandeep Agrawal (Acquirer-2) (Acquirer-1 and Acquirer-2 hereinafter collectively referred to as the "Acquirers") in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RC-DCR1/P/DW/2025/9005/1 dated March 24, 2025 in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 10,96,792 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 26.00% of the emerging equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers have appeared in Financial Express - Hindi Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkal - Marathi Daily (Mumbai edition) and Maha Nagar Times - English Daily (Jaipur Edition) on 31<sup>st</sup> January, 2025.

**THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:**

- Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:


Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	24.01.2025	Friday	24.01.2025	Friday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	31.01.2025	Friday	31.01.2025	Friday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	31.01.2025	Friday	31.01.2025	Friday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	07.02.2025	Friday	07.02.2025	Friday
Last date for a Competing offer	24.02.2025	Monday	24.02.2025	Monday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	04.03.2025	Tuesday	24.03.2025	Monday
Identified date*	06.03.2025	Thursday	26.03.2025	Wednesday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	13.03.2025	Thursday	03.04.2025	Thursday
Last date for revising the Offer Price	19.03.2025	Wednesday	08.04.2025	Tuesday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	19.03.2025	Wednesday	08.04.2025	Tuesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	20.03.2025	Thursday	09.04.2025	Wednesday
Date of Opening of the Offer	21.03.2025	Friday	11.04.2025	Friday
Date of Closure of the Offer	04.04.2025	Friday	28.04.2025	Monday
Post Offer Advertisement	15.04.2025	Tuesday	06.05.2025	Tuesday
Payment of consideration for the acquired shares	23.04.2025	Wednesday	14.05.2025	Wednesday
Final report from Merchant Banker	30.04.2025	Wednesday	21.05.2025	Wednesday

\*Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirers, Sellers / Existing Promoters) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

- As on date of the Letter of Offer, existing Share & Voting Capital / Fully Paid Equity Existing Share & Voting Capital of the Target Company was Rs. 64,70,000 divided into 6,47,000 Equity Shares of Rs. 10/- Each and Emerging Equity Share & Voting Capital / Emerging Share Capital / Emerging Voting Capital was 42,18,430 fully paid-up equity shares of the face value of Rs. 10/- each of the Target Company being the capital post allotment of 35,71,430 equity shares (18,00,000 equity shares to Acquirer-1, 7,00,000 equity to Acquirer-2 and 10,71,430 equity shares to public category investors) on preferential basis. Since Target Company has allotted 16,96,430 equity shares (4,50,000 equity shares to the Acquirer-1, 1,75,000 equity shares to Acquirer-2 and 10,71,430 equity shares to public category investors) on preferential basis on 28<sup>th</sup> March, 2025, hence as on date of this Corrigendum to DPS, existing Share & Voting Capital / Fully Paid Equity Existing Share & Voting Capital of the Target Company is Rs. 2,34,34,300 divided into 23,43,430 Equity Shares of Rs. 10/- Each.
- Equity shares allotted / to be allotted to the Acquirers, will be kept in demat escrow account in accordance with Regulation 22A of SEBI (SAST) Regulations.

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

**ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRERS**  
**NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED**  
 804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059.  
**Tel No.** +91-22- 4120 4837 / 4973 5078  
**Email id:** [navigant@navigantcorp.com](mailto:navigant@navigantcorp.com)  
**Website:** [www.navigantcorp.com](http://www.navigantcorp.com)  
**SEBI Registration No:** INM000012243  
**Contact person:** Mr. Sarthak Vijlani


**Navigant**  
Reimagining Business

**Place:** Mumbai  
**Date:** March 29, 2025

**नई दिल्ली**  
**CAPRI GLOBAL**  
**कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड**  
**कैप्री एवं निरचित कार्यालय : 502, टोकर-ए, रीनिगुला विमाने मार्ग, सेनगति बायट मार्ग, लोवर पार्क, मुम्बई – 400013, परिवर्तन कार्यालय : 0बी, वित्तीय तल, पूजा रोड, नई दिल्ली – 110060**

**गौतम सूचना**

प्रतिभूति ह